




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 372]
No. 372]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 30, 1979/अग्रहायण 9, 1901
NEW DELHI, FRIDAY, NOV. 30, 1979/AGRAHAYANA 9, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1979

सं० का. नि. 653(अ). —केंद्रीय सरकार, आवश्यक
वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा
प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विलायक निष्कर्षित तेल,
वितेलित भोजन और खाने योग्य आटा (नियन्त्रण) आदेश,
1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम
बनाती है, अर्थात् :—

- (1) इस आदेश का नाम विलायक निष्कर्षित तेल,
वितेलित भोजन और खाने योग्य आटा (नियन्त्रण)
तृतीय संशोधन आदेश, 1979 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त
होगा।

2. विलायक निष्कर्षित तेल, वितेलित भोजन और खाने
योग्य आटा (नियन्त्रण) आदेश, 1967 में,

(क) खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) में,—

- (1) पैरा (V) में, उप-पैरा (ख) के पश्चात् और
परन्तुक के पूर्व, निम्नलिखित उप-पैरा अन्तः
स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) जिसके कारखाने को, यद्यपि उसमें विलायक
निष्कर्षण संयंत्र लगा है, केंद्रीय सरकार की

पूर्व सहमति में, निदेशक ने लिखित आदेश
द्वारा और यह समाधान हो जाने पर कि
ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, अपने
द्वारा उपाप्त तेल वाले पदार्थों का किसी अन्य
उत्पादक के कारखाने में प्रसंस्करण करने की
अनुज्ञा दे दी है ;”

- (2) परन्तुक के प्रारम्भ में, “ऐसी कोई अनुज्ञा”
शब्दों के स्थान पर “उप-पैरा (ख) या उप-
पैरा (ग) के अधीन कोई अनुज्ञा” शब्द, कोष्ठक
और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) प्रथम अनुसूची में,

- (1) पैरा 1 में, “जिसने विलायक निष्कर्षित तेल
का उत्पादन प्रारम्भ होने वाले” और “आवेदन
की तारीख और” से समाप्त होने वाले उप-
पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा,
अर्थात् :—

“या

जिसके कारखाने को यद्यपि उसमें विलायक
निष्कर्षण संयंत्र लगा है, केंद्रीय सरकार की
पूर्व सहमति से, निदेशक ने लिखित आदेश
द्वारा और यह समाधान हो जाने पर कि
ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, उसके
द्वारा उपाप्त तेल वाले पदार्थों का, नीचे
उल्लिखित उत्पादक/उत्पादकों के, जिनका

प्रवर्ग प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट है, कार-
खाने/कारखानों में प्रसंस्करण की अनुज्ञा दी
है :—

उत्पादक का नाम
अनुज्ञापित संख्यांक
प्रवर्ग
कारखाने का नाम

(2) पैरा 3 में, “खण्ड 2(V) (ख) के अधीन जारी
की गई प्रवर्ग ‘ड’ अनुज्ञापितधारकों के लिए”
शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित शीर्ष रखा
जाएगा, अर्थात् :—

“केवल खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) के पैरा (5) के
उप-पैरा (ख) या (ग) के अधीन जारी
की गई प्रवर्ग ‘ड’ अनुज्ञापित धारकों के
लिए ।”

[2-एस. ई. ओ. (1)/79]

आई. एम. सहाय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES
(Department of Civil Supplies)

ORDER

New Delhi, the 30th November, 1979

G.S.R. 653(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Third Amendment Order, 1979.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent-Extracted Oil, De-oiled Meal and Edible Flour (Control) Order, 1967—

(a) in sub-clause (2) of clause 3,—

(i) in paragraph (v), after sub-paragraph (b) and before the proviso, the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

“(c) whose factory though equipped with a solvent-extraction plant, is permitted by the Controller, with the prior concurrence of the Central Government, by order in writing and on being satisfied that there are sufficient grounds for so doing, to process oil-bearing material, procured by him, in the factory of any other producer”;

(ii) in the proviso, in the opening sentence, for the words “any such permission”, the words, brackets and letters “any permission under sub-paragraph (b) or sub-paragraph (c)” shall be substituted;

(b) in the First Schedule—

(i) in paragraph 1, before the sub-paragraph beginning with the words “who commenced production of solvent-extracted oil” and ending with the words “the date of application, and”, the following shall be inserted, namely :—

“or

whose factory though equipped with a solvent-extraction plant, is permitted by the Controller, with the prior concurrence of the Central Government, by order in writing, and on being satisfied that there are sufficient grounds for so doing, to process oil-bearing material, procured by him, in the factory/factories of the under-mentioned producer/producers of the categories specified against each :—

Name of producer	Licence Category No.	Name of factory
------------------	----------------------	-----------------

(ii) in paragraph 3, for the heading “For category ‘E’ licences issued under clause 2(v)(b) only”, the following heading shall be substituted, namely :—

“In the case of persons holding category ‘E’ licence issued under sub-paragraph (b) or (c) of paragraph (v) of sub-clause (2) of clause 3 only.”

[2-SEO(1)/79]

I. M. SAHAI, Jt. Secy.